

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट- सराहनीय कार्य दिनांक- 24.07.2021

***एस0ओ0जी व थाना कलान की संयुक्त पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी*,**

अन्तर्राज्यीय ठगों के गिरोह का पर्दाफाश, 02 शातिर ठग गिरफ्तार, पीली धातु के 01 किलो सिक्के, ठगी के 03 लाख रुपये नगद व दो मोबाईल फोन बरामद।

श्री एस.आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में जघन्य अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान में घटना में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एसओजी टीम व थाना कलान पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 18.06.21 को थाना कलान क्षेत्र में थोक व्यापारी की दुकान पर अज्ञात 08 ठगों द्वारा नकली सोने के सिक्के दिखाकर 06 लाख रुपये ठग लेने की घटना कारित की गयी, जिसके संबंध में वादी मुकदमा श्री अनिल गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता नि0 कस्बा व थाना कलान जिला शाहजहाँपुर द्वारा थाना कलान पर मु0अ0सं0 370/21 धारा 420/406 भादवि बनाम 08 व्यक्ति अज्ञात के पंजीकृत कराया गया जिसमें 06 अभियुक्त पूर्व में ही SOG व थाना सदर बाजार की पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा इसमें गैंग की महिला सरगना सहित 02 अभियुक्त फरार चल रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक 23.07.21 को एसओजी टीम व थाना कलान पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से **कस्बा उसावा जनपद बदायूँ से श्याम मेडिकल स्टोर के सामने से समय करीब 17.00 बजे दिन उक्त ठगी गैंग की सरगना श्रीमती रानी बेन पत्नी प्रभुदयाल आदि 02 नफर को गिरफ्तार किया गया।** इस सम्बन्ध में थाना पर आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- श्रीमती रानी बेन पत्नी प्रभुदयाल निवासी आकाश नगर इन्द्रागढी कस्बा ड़ासना थाना मंसूरी जिला गाजियाबाद
- 2- रवि पुत्र प्रभुदयाल निवासी आकाश नगर इन्द्रागढी कस्बा ड़ासना थाना मंसूरी जिला गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण-

- 1- ठगी करने के आशय से पीली धातु के सिक्के वजन करीब 1 किग्रा
- 2- दिनांक 18.06.2021 को अभियुक्तगण द्वारा वादी से ठगी किये गये 03 लाख रुपये नगद बरामद।
- 3- दो मोबाईल फोन।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त गण से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम पीली धातु के सिक्के रखते हैं जिनको हम सोने के सिक्कों के भाव में लोगों को बहला फुसलाकर नकली सिक्कों को असली बताकर रूपया ऐंठते हैं। हमारे इस काम में कुल 08 लोग 06 पुरुष तथा 02 महिलाएं हैं हम लोगों ने कस्बा कलान में 18.06.2021 को इसी प्रकार के नकली सिक्के एक दुकानदार को देकर 06 लाख रुपये ठग ले गये थे। काम के हिसाब से रुपये बाँटे गये थे कुल 03 लाख रुपये हम दोनों लोगों के पास (02 लाख रुपये श्रीमती रानी बेन पत्नी प्रभुदयाल उपरोक्त तथा 01 लाख रुपये उसके लडके रवि पुत्र प्रभुदयाल उपरोक्त के पास) से मिले हैं। आज पुनः उसी प्रकार की ठगी करने के उद्देश्य से नकली सिक्के करीब एक किग्रा0 लेकर कस्बा उसावा जनपद बदायूँ आये थे किसी से बात तय नहीं हो पायी उससे पहले पुलिस द्वारा पकड लिया गया था। इस प्रकार जुर्म स्वीकर कर रहे हैं।

पुलिस टीम का विवरण-

- 1- उ0नि0 यादवेन्द्र सिंह थाना कलान
- 2- हे0का0 राजाराम पाल सिंह एसओजी
- 3- का0 कुशल पाल सिंह एसओजी
- 4- का0 अजय कुमार एसओजी
- 5- म0का0 सृष्टि राणा थाना कलान
- 6- रि0का0 नवीन थाना कलान
7. रि0का0 अंकित थाना कलान